

संस्थान की गतिविधियों में हिंदी

माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की परामर्शदात्री समिति बैठक - जुलाई, 2018

श्री राधामोहन सिंह जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में तमिल नाडु के रामेश्वरम में दिनांक 2 जुलाई, 2018 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की अंतर-सत्र बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संस्थानों, कृषि

एवं अनुसंधान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, एम पी ई डी ए, तमिल नाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय और मात्स्यिकी विभाग के कार्मिकों ने भाग लिया।

इस दौरान भारत में समुद्री मात्स्यिकी और समुद्री संवर्धन पर विस्तृत चर्चा हुई। समुद्री संवर्धन से जुड़ी हुई कार्यविधियों को दर्शाने हेतु सी एम एफ आर आइ द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। बैठक की कार्यसूची, बैनर, पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण और सारी चर्चाएं हिन्दी में की गयीं।



परामर्शदात्री समिति बैठक का दृश्य

तीरा मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम

तटीय गाँव की युवा महिलाओं में कुशलता विकास के लिए राज्य सरकार की परियोजना तीरा मैत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में संस्थान में हर वर्ष एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कोच्ची

के तटीय गाँवों की युवा मछुआरियों में कुशलता एवं क्षमता का वर्धन इस प्रशिक्षण का लक्ष्य था। इस दौरान दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को सामान्य तौर पर बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले हिन्दी शब्दों, वाक्यांशों तथा सब्जियों, फूलों, पौड़ों, पक्षियों, जानवरों आदि के नाम, संख्याओं, 12 महीनों, सप्ताह के दिनों

के हिन्दी नाम और बुनियादी हिन्दी व्याकरण के बारे में भागीदारों को अवगाह दिया गया। आज के दिन हिन्दी भाषा के प्रति लोगों की लगाव और प्राधान्य को मानते हुए भागीदरों ने बोलचाल की हिन्दी सीखने में बड़ी अभिरुचि दिखायी। कुल 35 युवा मछुआरिनों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।



तीरा मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम

वाजपेय काव्यांजलि का आयोजन

भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेय जी की पहली पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

दिनांक 16 सितंबर, 2018 को संस्थान मुख्यालय में काव्यांजलि आयोजित की गयी। इस दौरान संस्थान के कर्मचारियों द्वारा श्री वाजपेय जी की कविताओं का गायन किया गया।



कविता प्रस्तुतीकरण



आदिवासी समुदाय के लिए महाचिंगट पालन पर प्रशिक्षण

सी एम एफ आर आइ की ट्राइबर सब प्लान (टी एस पी) योजना के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी

समुदाय के मछुआरों के लिए दिनांक 21 मई, 2018 को महाचिंगट (लोब्सटर) के पालन पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में व्याख्यान और संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ चर्चाएं हिन्दी में की गयी और बैनर द्विभाषी में तैयार किया गया।



महाचिंगट पालन पर प्रशिक्षण